

प्रेस नोट थाना रामगढताल दिनांक 07.03.2021
कोर्ट द्वारा जारी एनबीडब्ल्यू में वांछित गैगेस्टर / हिस्ट्रीशीटर गिरफ्तार

पुलिस उपमहानिरीक्षक / वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक गोरखपुर के निर्देशन में तथा पुलिस अधीक्षक नगर के पर्यवेक्षण में क्षेत्राधिकारी कैण्ट के नेतृत्व में प्रभारी निरीक्षक श्री जगत नारायण सिंह थाना रामगढताल जनपद गोरखपुर मय उ0नि0 श्री धर्मेन्द्र जैन मय टीम को अपराध एवं अपराधियों पर अंकुश लगाने एवं पर्दाफाश हेतु लगाया था। टीम द्वारा लगातार तलाश व दबिश की कार्यवाही की जा रही थी। उ0नि0 श्री धर्मेन्द्र जैन मय टीम द्वारा रात्रिगस्त, तलाश वांछित वारण्टी, संदिग्ध व्यक्ति/वाहन के दौरान दिनांक 07.03.2021 को अभियुक्त / एनबीडब्ल्यू एसटी नं0 11/16 धारा 3(1) यूपी गैगेस्टर एक्ट से सम्बन्धित अर्जुन यादव पुत्र भोला यादव निवासी गायघाट थाना रामगढताल जनपद गोरखपुर को गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त अर्जुन यादव उपरोक्त थाना रामगढताल पर हिस्ट्रीशीटर है जिसका एचएस नं0 133 A है। अभियुक्त अर्जुन यादव उक्त को विरुद्ध काफी मुकदमें दर्ज है, यह संज्ञेय अपराध करता है। यह अपनी चल अचल सम्पत्ति को हटा बढा कर नेपाल भागने की फिराक में था, जिसपर माननीय न्यायालय द्वारा एनबीडब्ल्यू जारी किया गया था।

गिरफ्तार अभियुक्तगण

1. अर्जुन यादव पुत्र भोला यादव निवासी गायघाट थाना रामगढताल जनपद गोरखपुर उम्र करीब 35 वर्ष।

आपराधिक इतिहास

1. मु0अ0सं0 961/14 धारा 41, 411, 419, 420, 467, 468, 471 भादवि0 थाना कैण्ट जनपद गोरखपुर।
2. मु0अ0सं0 1398/17 धारा 147, 323, 504, 506 भादवि0 थाना कैण्ट जनपद गोरखपुर।
3. मु0अ0सं0 279/15 धारा 307 भादवि0 व 3/25 आर्म्स एक्ट थाना खोराबार जनपद गोरखपुर।
4. मु0अ0सं0 280/15 धारा 307 भादवि0 व 3/25 आर्म्स एक्ट थाना खोराबार जनपद गोरखपुर।
5. मु0अ0सं0 312/15 धारा 307,504 भादवि0 व 7 सीएलए एक्ट थाना खोराबार जनपद गोरखपुर।

गिरफ्तारी बरामद करने वाली पुलिस टीम

1. प्रभारी निरीक्षक श्री जगत नारायण सिंह थाना रामगढताल जनपद गोरखपुर
2. उ0नि0 श्री धर्मेन्द्र जैन थाना रामगढताल जनपद गोरखपुर
3. का0 पंकज चौबे थाना रामगढताल जनपद गोरखपुर
4. हो0गा0 हनुमान प्रसाद थाना रामगढताल जनपद गोरखपुर